

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2025	2026		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			जन. 31	फर. 28		
		फर. 21	जन. 31	फर. 28	2025-26	2026
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	18243972	18125413	20475382	20754078	13.8	14.5
II. खाद्यान्न ऋण	36531	42552	89295	82643	126.2	94.2
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	18207441	18082860	20386087	20671435	13.5	14.3
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2287060	2264305	2509789	2543477	11.2	12.3
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3985660	3916783	4388308	4447192	11.6	13.5
2.1 सूक्ष्म और लघु	798473	791321	1031291	1031799	29.2	30.4
2.2 मध्यम	363245	355603	426211	430263	18.4	21.0
2.3 बड़े	2823942	2769858	2930806	2985130	5.7	7.8
3. सेवाएं	5093565	4995649	5722969	5807798	14.0	16.3
3.1 परिवहन परिचालक	261575	260651	267665	280409	7.2	7.6
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	33063	40695	46183	40.3	39.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	83366	82298	97418	98895	18.6	20.2
3.4 शिपिंग	7304	7411	10373	10502	43.8	41.7
3.5 विमानन	46072	45982	49613	49830	8.2	8.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	195957	192799	209054	210543	7.4	9.2
3.7 व्यापार	1184550	1154669	1309115	1320670	11.5	14.4
3.7.1 थोक व्यापार1	646099	629036	723122	737574	14.2	17.3
3.7.2 खुदरा व्यापार	538451	525633	585993	583096	8.3	10.9
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	523264	516850	597880	606612	15.9	17.4
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)2 जिसमें से	1635102	1610744	1905207	1947584	19.1	20.9
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	323182	324611	353406	359226	11.2	10.7
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	217593	305670	316124	38.2	45.3
3.10 अन्य सेवाएं3	1123459	1091183	1235949	1236570	10.1	13.3
4. व्यक्तिगत ऋण	5971696	5898808	6723042	6796850	13.8	15.2
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23201	24301	22360	21925	-5.5	-9.8
4.2 आवास	3010477	2978759	3278420	3305691	9.8	11.0
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141842	135169	154360	154183	8.7	14.1
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	9808	10264	10085	0.1	2.8
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	287047	296417	292067	2.7	1.7
4.6 शिक्षा	137456	136821	154899	155590	13.2	13.7
4.7 वाहन ऋण	622793	619797	720567	726037	16.6	17.1
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण4	206284	188051	400517	428578	107.8	127.9
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1535197	1519054	1685238	1702695	10.9	12.1
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां5	2287794	2257407	2565250	2600490	13.7	15.2
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम6	2239409	2223184	2735314	2841889	26.9	27.8
(iii) मध्यम उद्यम7	601451	584615	682981	692153	15.1	18.4
(iv) आवास	746651	747503	1030805	1033416	38.4	38.2
(v) शिक्षा ऋण	62826	62874	77853	77935	24.1	24.0
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	8490	12243	13955	35.2	64.4
(vii) सामाजिक अवसरचना	1316	1233	1255	1221	-7.3	-1.0
(viii) निर्यात ऋण	11805	11954	10663	10270	-13.0	-14.1
(ix) अन्य	49552	51733	40417	41690	-15.9	-19.4
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1864606	1789945	2007819	2032409	9.0	13.5

टिप्पणियाँ: (1) आंकड़े अंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े सेक्शन-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।

(2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।

2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएँ शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।

5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।

6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।

7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।